



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052023-246197
CG-DL-E-31052023-246197

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]
No. 327]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2023/ज्येष्ठ 10, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2023/JYAISHTHA 10, 1945

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 मई, 2023

सा.का.नि. 401(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कनिष्ठ संरक्षण सहायक और संरक्षण सहायक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2016 का जहां तक उसका संबंध संरक्षण सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में संरक्षण सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .--- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संरक्षण सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.--- पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि .--- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य पूर्वोक्त बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .--- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.-- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संरक्षण सहायक	540*(2023) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 4 (25500-81100 रु.)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए आयु सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	नहीं; तथापि इन नियमों की अधिसूचना के पहले भर्ती किए गए पदधारकों को भी प्रोन्नति के लिए पात्रता हेतु संरक्षण में सेवा कालीन प्रशिक्षण संतोषप्रद रूप से पूरा करना अपेक्षित होगा।	दो वर्ष टिप्पण: सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में दो सप्ताह का अनिवार्य आगमन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना शामिल होगा।

<p>टिप्पण 1. नियुक्ति होने पर, अभ्यर्थी को आगे और प्रोन्नति के लिए पर्यवेक्षण अवधि के दौरान संरक्षण में सेवा-काल प्रशिक्षण संतोषप्रद रूप से पूरा करना अपेक्षित होगा।</p> <p>टिप्पण 2: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>		
---	--	--

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।
<p>टिप्पण :- स्तर 2 में (19900-63200 रु.) ऐसे कनिष्ठ सहायक जिन्होंने इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है, को संरक्षण सहायक के रूप में प्रोन्नत किया जाएगा और जब उनमें से सभी प्रोन्नत हो जाएंगे तब कनिष्ठ सहायक संरक्षण का पद समाप्त हुआ माना जाएगा।</p>	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:</p> <p>(1) संयुक्त महानिदेशक (संरक्षण) या निदेशक(संरक्षण), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – अध्यक्ष;</p> <p>(2) अधिक्षण पुरातत्व अभियंता – सदस्य; और</p> <p>(3) उपनिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य।</p> <p>समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:</p> <p>(1) संयुक्त महानिदेशक (संरक्षण) या निदेशक(संरक्षण), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – अध्यक्ष;</p> <p>(2) अधिक्षण पुरातत्व अभियंता – सदस्य; और</p> <p>(3) उपनिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. जे-11012/3/2022-प्रशासन-I]

एम. जेना, निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2023

G.S.R. 401(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Junior Conservation Assistant and Conservation Assistant (Group ‘C’ posts), Recruitment Rules, 2016, in so far as it relates to the post of Conservation Assistant, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Conservation Assistant in the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Conservation Assistant (Group ‘C’ post), Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.- The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for doing so, exempt any person from the operation to this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Conservation Assistant.	540* (2023) (*subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).

Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: (i) Minimum 10 th pass from a recognised Board. (ii) Diploma in Civil Engineering of minimum three years duration from a recognised Institute. Note 1: On appointment, the candidates will be required to satisfactorily complete in-service training in conservation during probation period

		to become eligible for their substantive appointment. Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.
--	--	--

Whether age and qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
No, However, the incumbents recruited prior to the notification of these rules will also be required to satisfactorily complete in-service training in conservation for eligibility for promotion.	Two years. Note: The period of probation of two years for direct recruits shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment. Note: Junior Conservation Assistant in level-2 (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade shall be promoted as Conservation Assistant and once all of them are promoted, the post of Junior Conservation Assistant shall be treated as abolished.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition thereof.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Director General(Conservation) or Director(Conservation), Archaeological Survey of India – Chairman; (2) Superintending Archaeological Engineer -Member; and (3) Deputy Director(Administration) – Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Joint Director General(Conservation) or Director(Conservation), Archaeological Survey of India -Chairman; (2) Superintending Archaeological Engineer –Member; and (3) Deputy Director(Administration) –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. J-11012/3/2022-Admn.I]

M. JENA, Director (Administration)